

प्रेस विज्ञप्ति

02 हत्यारे घटना में प्रयुक्त 01 अदद आला कत्ल डण्डा सहित गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों व पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदयद्वारा अपने दिशा निर्देश में प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गनिर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थाना सहजनवां क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सिसई में नदी के किनारे हुई हत्या जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 445/19 धारा 420/302 IPC पंजीकृत हुआ था के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सहजनवां की टीम गठित कर लगाया गया था। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक सहजनवां मय हमराही कर्मचारीगण के तलाश वांछित/वारंटी व संदिग्ध व्यक्ति की तलाशमें क्षेत्र में मौजूद था कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिसई में नदी के किनारे हुई हत्या से सम्मिलित दो अभियुक्त इस समय कसरौल में मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं इस सूचना में SHOMय हमराही कर्मचारीगण के मौके से प्रस्थान कर कसरौल पहुंचा जहाँ पर मुखबिर के इशारे पर वहाँ पर खड़े दो व्यक्तियों को हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ कर नाम पता पूँछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः .1धर्मवीर उर्फ लल्ला पुत्र सूरजपाल निवासी मधईया थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत .2 पराग यादव पुत्र मोल्हू निवासी छपिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर बताया। अभियुक्त के पराग यादव के पास से घटना में प्रयुक्त 5000 रुपया तथा अभियुक्त धर्मवीर उर्फ लल्ला उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद डंडा बरामद हुआ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

- .1धर्मवीर उर्फ लल्ला पुत्र सूरजपाल निवासी मधईया थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत
- .2पराग यादव पुत्र मोल्हू निवासी छपिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर

वांछित/फरार अभियुक्त

1. कालीचरण उर्फ बबलू पुत्र सुंदरलाल निवासी मधईयां थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत
- बरामदगी:-

1. घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद डंडा व 5000 रुपया नगद

गिरफ्तारी का स्थान

कसरौली

गिरफ्तारी व बरामदगी का दिनांक

दिनांक 10.08.19 समय करीब 10.20 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री दिलीप कुमार सिंह थाना सहजनवां गोरखपुर
2. उ0नि0 हरेराम सिंह यादव थाना सहजनवां गोरखपुर
3. का0 अभिषेक प्रसाद थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. का0 अंजीत कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर